



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3730]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940

No. 3730]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4899(अ).**—केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि स्थल मानचित्र और संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अश्वमेघ यज्ञ 1, 2 और 3, ग्राम जगतग्राम एन फील्ड टी कंपनी जंगल तथा डूमेट(बाढवाला), तहसील- विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय महत्त्व का है;

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के अपने इरादे का एतद्वारा नोटिस देती है,

राजकीय राजपत्र में उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने की अधिसूचना जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से दो महीने के भीतर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।


## “अनुसूची”

राज्य.	जनपद.	तहसील.	स्थान.	स्मारक का नाम.	संरक्षण के अधीन शामिल किये जाने वाले खसरा नंबर.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर).	स्वामित्व.	सीमाएं.
उत्तराखंड.	देहरादून.	विकासनगर.	जगतग्राम ग्राम एन फील्ड टी कंपनी जंगल तथा डूमेट (बाढ़वाला).	पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अश्वमेघ यज्ञ 1, 2 और 3.	ग्राम एन फील्ड टी कंपनी जंगल खसरा नंबर 7.	0.3080 हेक्टेयर.	अनिरुद्ध कुमार, अरविन्द कुमार पुत्रगण शिव चन्द्र कुमार निवासी देहरादून.	<p><b>उत्तर:</b> ग्राम डूमेट (बाढ़वाला) के खसरा नंबर 260 सी.सी.रोड, 297 (शेष), ग्राम एन फील्ड टी कंपनी जंगल के खसरा नंबर 2 और 9.</p> <p><b>पूर्व:</b> ग्राम डूमेट (बाढ़वाला) के खसरा नंबर 318, 317, 315, 314, 299 (शेष), नाला तथा 297 (शेष), ), ग्राम एन फील्ड टी कंपनी जंगल के खसरा नंबर 9 और 6.</p> <p><b>दक्षिण:</b> ग्राम एन फील्ड टी कंपनी जंगल का खसरा नंबर 6 और ग्राम डूमेट (बाढ़वाला) का खसरा नंबर 297(शेष).</p> <p><b>पश्चिम:</b> ग्राम एन फील्ड टी कंपनी जंगल का खसरा नंबर 2 और ग्राम डूमेट(बाढ़वाला) के खसरा नंबर 297(शेष), 298 (शेष), नाला, 299 (शेष), आम का बगीचा, 273, 272, 265, 264, 263 सी.सी. रास्ता और खाली भूमि.</p>
					खसरा नंबर 8	0.0360 हेक्टेयर.	अनिरुद्ध कुमार, अरविन्द कुमार पुत्रगण शिव चन्द्र कुमार निवासी देहरादून.	
					ग्राम डूमेट खसरा नंबर 294 (भाग).	0.0650 हेक्टेयर.	राकेश पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम	
					खसरा नंबर 295.	0.0200 हेक्टेयर.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार	
					खसरा नंबर 296.	07570 हेक्टेयर.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार	
					खसरा नंबर 297 (भाग).	0.0140 हेक्टेयर.	राकेश पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम, नरेश कुमार पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम	

					खसरा नंबर 298(भाग).	0.0053 हेक्टेयर.	नरेश कुमार पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम, संजय सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम	
					खसरा नंबर 299(भाग).	0.0449 हेक्टेयर.	नरेश कुमार पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम, संजय सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम, हरीश कुमार पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम, अतिरिक्त सीलिंग भूमि	
					<b>कुल क्षेत्रफल</b>	<b>1.2502 हेक्टेयर.</b>		

[फा. सं. 2-17/2012-स्मा.]

उषा शर्मा, महानिदेशक



**MINISTRY OF CULTURE**  
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2018

**S.O. 4899(E).**— Whereas, the Central Government is of the opinion that, the ancient monument, namely, Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3 in the locality of Jagatgram Village ANN field Tea Company Jungle and Dumet (Barahwala), Tehsil Vikas Nagar, District Dehradun, Uttrakhand, specified in the site plan and the Schedule annexed hereto, is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection, to the declaration of the said ancient monument to be of national importance may be made to the Director General, Archaeological Survey of India, 24, Tilak Marg, New Delhi-110001 within a period of two months from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification is made available to the public;

The objections, if any, received from any person with respect to the said draft notification within the period so specified shall be taken in to consideration by the Central Government.

**“SCHEDULE”**

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument/site	Khasra numbers to be included under protection	Area (in hectare)	Ownership	Boundaries
Uttrakhand.	Dehradun.	Vikas Nagar.	Jagatgram Village ANN field Tea Company jungle and Dumet (Barahwala).	Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3.	Village Ann Field tea Company Jungle Khasra number 7.	0.3080 hectare	Aniruddh Kumar, Arvind Kumar, Putragan Shiv Chandra Kumar, Niwasri Dehradun	<b>North:</b> Khasra numbers 260, C.C. Road, 297, (Balance) of Village Dumet (Barhwala), 2 and 9 of Village Ann Field Tea Company Jungle  <b>East:-</b> Khasra numbers 314, 315, 317, 318, 299 (Balance) Mango Garden, 298 (Balance), Nala and 297 (Balance) of Village Dumet (Barhwala), 9 and 6 of Village Ann field Tea Company Jungle
					Khasra number 8.	0.0360 hectare	Aniruddh Kumar, Arvind Kumar, Putragan Shiv Chandra Kumar, Niwasri Dehradun	
					Village Dumet Khasra number 294 (Part).	0.0650 hectare	Rakesh Putra Janak Singh, Niwasi Gram	
					Khasra number 295.	0.0200 hectare	Archaeological Survey of India, Central Government	

					Khasra number 296.	07570 hectare	Archaeological Survey of India, Central Government	<b>South:</b> Khasra numbers 6 of Village Ann field Tea Company Jungle and 297 (balance) of Village Dumet (Barhwala)  <b>West:</b> Khasara numbers 2 of Village Ann field Tea Company Jungle and 297 (balance), 298 (Balance), Nala, 299 (Balance), Mango Garden, 273, 272, 265, 264, 263, C.C. Road and open land of village Dumet (Barhwala)
					Khasra number 297 (Part)	0.0140 hectare	Rakesh Putra Janak Singh, Niwasi Gram	
					Khasra number 298 (Part).	0.0053 hectare	Naresh Kumar Putra Janak Singh, Niwasi Gram and Sanjay Singh Putra Jeet Singh, Niwasi Gram	
					Khasra number 299 (Part).	0.0449 hectare	Naresh Kumar Putra Janak Singh, Niwasi Gram, Sanjay Singh Putra Jeet Singh, Niwasi Gram Harish Kumar Putra Janak Singh, Niwasi Gram and Atirikt Ceiling Bhumi	
					<b>Total Area</b>		<b>1.2502 hectare</b>	

[F. No. 2-17/2012-M]  
USHA SHARMA, (Director General)

